

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 09.01.2021

मिशन शक्ति अभियान / एन्टीरोमियो चेकिंग

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं पर होने वाले अपराधों के रोक थाम हेतु आज दिनांक 09.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के समस्त थानों की एन्टीरोमियो टीमों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत बाजारों / सार्वजनिक स्थानों स्कूल / कॉलेजों / धार्मिक स्थानों / प्रमुख चौराहों / बस स्टैण्ड पर एन्टी रोमियो चेकिंग की गई व प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड उ0नि0 श्रीमती गौरी शुकला के नेतृत्व में खलीलाबाद में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान बिना वजह घूमने वाले लडकों / शोहदों की चेकिंग की गई तथा बालिकाओं / महिलाओं से उनकी सुरक्षा के संबन्ध में बताया गया साथ ही उ0प्र0 पुलिस द्वारा चलायी जा रही सुरक्षा संबन्धित एप्प / 112 / वुमेन पावर हेल्प लाइन 1090 / यूपी कॉप / 181 / पुलिस कंट्रोल नंबर 112 चाइल्ड हेल्प लाइन-1098 के बारे में जानकारी देकर थाने के मोबाइल नम्बरों के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 09-01-2021

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/ 107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2547 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कुर्थिया से इवेन्ट संख्या 08292 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को जरिये एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया, पीआरवी कर्मियों की

सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 सुनील साही, आ0 विश्वजीत यादव, हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 97 वाहनो से 78000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 09.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 97 वाहनो से 78000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।